



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 भाद्र 1940 (श0)
(सं0 पटना 867) पटना, वृहस्पतिवार, 20 सितम्बर 2018

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

19 सितम्बर 2018

सं० एम-1-009/2014-52— बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफल होने के फलस्वरूप निरर्हित घोषित करने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का आदेश सं०-76/आदेश/पूर्व अनु०-1/बिहार-वि.स./2015/दिनांक 17.08.2018 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सोहन कुमार ठाकुर,
विशेष सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/17 अगस्त, 2018/26 श्रावण, 1940 (शक)

यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उस के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है।

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायौचित्य नहीं है।

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है:-

सारणी

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निर्हरता का कारण
1	2	3	4	5
1	बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2015	78-कुशेश्वर स्थान (अ.जा.)	तुरंती सादा ग्राम+पो०-भेलाही, थाना-जलई, जिला-सहरसा, बिहार।	निर्वाचन व्ययोंका कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2	-वही-	80-बेनीपुर	तारा कान्त झा ग्राम-धेरूख, पो०-बेनीपुर थाना-बहेड़ा, जिला-दरभंगा, बिहार।	-वही-
3	-वही-	-वही-	जीतेन्द्र पासवान ग्राम-कन्हौली, पो०-ब्रह्मपट्टी थाना-बहेड़ा, जिला-दरभंगा, बिहार।	-वही-
4	-वही-	84-हायाघाट	मो० अरशद ग्राम-बिलासपुर, पोस्ट+थाना-हायाघाट, जिला-दरभंगा, बिहार।	-वही-
5	-वही-	-वही-	राम सखा पासवान ग्राम-शिवसिंहपुर, पो०-मल्ही पट्टी बहादुरपुर, थाना-अशोक पेपर मिल, जिला-दरभंगा, बिहार।	-वही-
6	-वही-	130-पातेपुर	लखिन्द्र पासवान ग्राम-गद्दोपुर, पोस्ट-महुआ, थाना-महुआ, जिला-वैशाली, पिन नं०-844122, बिहार।	-वही-
7	-वही-	151-परवत्ता	सतीश प्रसाद सिंह ग्राम-करना, पो०+थाना-परवत्ता, जिला-खगड़िया, बिहार।	-वही-

आदेश से,
आनन्द कुमार पाठक,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

Nirvachan Sadan Ashoka Road New Delhi – 110001/17th August, 2018/26 Shravana, 1940(Saka)

No. 76/ORDER/ES-1/BR-LA/2015—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2015 from the State of Bihar as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation, if any made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Assembly Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

TABLE

S. NO.	Particulars of Election	Number & Name of the Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1	General Election to the Bihar Legislative Assembly 2015	78-Kusheshwar Asthan (S.C.)	Turanti Sada Vill+Post-Bhelahi, P.S-Jalai, Distt-Saharsa, Bihar	Failure to lodge any account of Election expenses
2	-do-	80-Benipur	Tara Kant Jha Vill-Dherukh, Post-Benipur, P.S-Bahera, Distt-Darbhanga	-do-
3	-do-	-do-	Jitendra Paswan Vill-Kanhaul, Post-Brahampatti, P.S-Bahera, Distt-Darbhanga	-do-
4	-do-	84-Hayaghat	MD Arshad Vill-Bilaspur, P.S+Post-Hayaghat, Dist-Darbhanga	-do-
5	-do-	-do-	Ramashakha Paswan Vill-Shivaisinghpur, P.O-Malhipatti Bahadurpur, P.S-Ashok Paper Maill, Dist-Darbhanga, Bihar	-do-

S. NO.	Particulars of Election	Number & Name of the Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
6	General Election to the Bihar Legislative Assembly 2015	130-Patepur	Lakhindra Paswan Vill- Gaddopur, P.O-Mahua, P.S-Mahua, Distt-Vaishali Pin Code-844122, Bihar	Failure to lodge any account of Election expenses
7	-do-	151-Parbatta	Satish Prasad Singh Vill-Karna, P.O+Thana-Parbatta, Dist-Khagaria, Bihar	-do-

By Order,
ANAND KUMAR PATHAK,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 867-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>